



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र 1932 (श0)
(सं0 पटना 266) पटना, शुक्रवार, 16 अप्रील 2010

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

8 मार्च 2010

सं0 बि०व०से०—(आ०)—03/10-627/प०व०,—श्री लक्ष्मिन्द्र पंडित, बि०व०से०, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा के विरुद्ध प्रथम द्रष्टव्या निम्नांकित आरोपों के प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की जानी है :—

- (i) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारन्टी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 में कुल रू0 2002492 (बीस लाख दो हजार चार सौ बानवे) रुपये मात्र का गवन/दुर्विनियोग करना ।
- (ii) छात्र वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में क्रमशः रुपए 403200 (चार लाख तीन हजार दो सौ) रुपये मात्र एवं 689800 (छः लाख नवासी हजार आठ सौ) रुपये मात्र का गवन/दुरुपयोग करना ।
- (iii) उच्च पदाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करना, वन रोपण से संबंधित अभिलेखों का संधारित नहीं करना एवं प्रतिवेदन समर्पित नहीं करना ।
- (iv) अपने प्रमंडल के अन्तर्गत अवैध आरा मिलों के संचालन में बढ़ावा देना एवं उच्च पदाधिकारियों के आदेश के उपरान्त भी उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करना ।
- (v) अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरत कर प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त करना एवं वानिकी एवं प्रमंडलीय कार्यों को प्रायः ठप कर देना ।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत श्री पंडित को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

2. निलंबन अवधि में नियमानुसार इन्हें निलंबन भत्ता देय होगा ।

4. निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय होगा ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

देव नन्दन यादव,

सरकार के उप—सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 266-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>